

Alien Emergency Medical (AEM)

COVID-19 का आकलन और इलाज

पृष्ठभूमि

Alien Emergency Medical (AEM) ऐसे व्यक्तियों के लिए एक प्रोग्राम है जो एक योग्य चिकित्सीय आपात स्थिति में हैं और नागरिकता या आप्रवासन की शर्तों को पूरा नहीं करते, या वह ऐसा कोई योग्य व्यक्ति है जिसने 5-साल की सीमा को पार नहीं किया है।

योग्य आपात स्थितियों में शामिल हैं:

- एमर्जेंसी रूम विज़िट्स
- इनपेशेंट हॉस्पिटल स्टे
- आउटपेशेंट सर्जरी
- डायलिसिस
- कैंसर का इलाज
- अस्वीकरण-विरोधी दवाइयाँ

प्रोग्राम अपडेट

[COVID-19 महामारी](#) के जवाब में Health Care Authority (HCA) ने एक [आपातकालीन नियम](#) दायर किया है। विस्तार से यह नियम इस तरह है:

- योग्य आपात स्थितियों में COVID-19 का आकलन और इलाज शामिल हैं।
- परीक्षण और इलाज की सेटिंग्स में कार्यालय, क्लीनिक, या टेलीहेल्थ शामिल हैं।
- अनुमोदित सेवाएं। COVID-19 के लिए जिन लोगों का टेस्ट पॉज़िटिव आता है, उनकी दवाइयों और साँस लेने संबंधी सेवाओं को कवर किया जा सकता है। COVID-19 के संभावित पॉज़िटिव नतीजों के लिए फ़ॉलो-अप विज़िट्स और दवाइयों को कवर किया जा सकता है।

आवेदन करने का तरीका

वयस्क उम्र 19 से 64 तक:

- **ऑनलाइन:** यह देखें [Washington Healthplanfinder](#)
- **मोबाइल ऐप:** इसे डाउनलोड करें [WAPlanfinder ऐप](#)
- **पेपर:** [स्वास्थ्य सेवा कवरेज के लिए आवेदन \(18-001P\)](#)
- **फ़ोन:** 1-855-923-4633

वयस्क उम्र 65 या उससे अधिक, नेत्रहीन, विकलांग, या लंबे समय तक सेवाओं की आवश्यकताओं सहित:

- **ऑनलाइन:** [Washington Connection](#)
- **पेपर:** [बुजुर्ग, नेत्रहीन, विकलांग/लंबे समय तक सेवा की कवरेज के लिए आवेदन \(18-005\)](#)
- **फ़ोन:** 1-877-501-2233

AEM फ़ैक्स कवर शीट में कवरेज के लिए आवेदन सेक्शन में COVID-19 शामिल है।